



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1979/वैशाख 11, 1901
No. 189] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1979/VAISAKHA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

क्र. आ. 237(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. क्र. आ. 601(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./74, तारीख 8 अक्टूबर, 1974 और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. क्र. आ. 566(अ.), तारीख 25 सितम्बर, 1978 को भागतः उपान्तरित करते हुए, सचिव, रूग्ण और बंद उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार जिसे इसमें आगे 'प्राधिकृत व्यक्ति' कहा गया है) को, निम्नलिखित निवेदन और शर्तों

के अधीन रहते हुए, उपक्रम अर्थात्, मॅसर्स ईस्टर्न डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, का सम्पूर्ण प्रबंध ग्रहण करने के लिए तुरन्त प्रभावी रूप से प्राधिकृत करती हैं, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा ;
 - (2) प्राधिकृत व्यक्ति 8 अक्टूबर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के अवसान तक पद धारण करेगा ;
 - (3) यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो, इस प्राधिकरण का पक्ष भी समाप्त कर सकेगी ।
2. यह आदेश 8 अक्टूबर, 1974 से पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 2(42)/72-सी. यू. सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st May, 1979

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Orders of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 601(E)/18A/IDRA/74, dated the 8th October, 1974 and Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 566(E), dated the 25th September, 1978, the Central Government hereby authorise with immediate effect, the Secretary, Sick and Closed Industries Department, Government of West Bengal (hereafter referred to as the 'Authorised Person') to take over the management of the whole of the undertaking, namely, Messrs. Eastern Distilleries Private Ltd., Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (ii) the authorised person shall hold office upto the expiration of the five years from the 8th October, 1974;
- (iii) the Central Government may terminate this authorisation earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for the remaining period of five years from the 8th October, 1974.

[File No. 2(42)/72-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.